HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off & Works: Near Industrial Development Colony, Hisar-125005 (HRY) Phone: 01662-220067,220367,220738 Fax 01662-220265 Email :info@hisarmetal.com, Web www.hisarmetal.com CIN No: L74899HR1990PLC030937

June 12, 2021

Corporate Relationship Department Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001

Scrip Code: 590018 (Category: Permitted for Trade) Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051

Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication for Board Meeting to consider and approve Audited financial results for the quarter and year ended on March 31, 2021

Dear Sir / Madam

Pursuant to our letter dated 11/06/2021 regarding meeting of board of Directors of the company to be held on Friday, June 25, 2021 to consider and take on record inter alia the Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended 31st March,2021 we hereby enclose copies of the notice published in "The Financial Express" (English-Newspaper) and "Jansatta" (Hindi-Newspaper) on 12/06/2021.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Hisar Metal Industries Limited

(Vishesh Kumar Chugh)

Company Secretary & Compliance Officer

HISAR

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

March 2021

| (Rs. in '000) | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| D | | | | |
| Quarter Ended rch 2020 | Year Ended March 2020 | | | |
| 44,476 | - 202,793 | | | |
| (3,470) | (2,294) | | | |
| 19,698 | 20,873 | | | |
| 20,096 | 20,227 | | | |
| 20,613 | 25,827 | | | |
| 596.92 | 596.92 | | | |
| | 383,968 | | | |
| AND LOS SALISCAS | | | | |
| 3.45 | 4.33 | | | |
| Minera and | Contract of the last | | | |

ttee at its meeting held on ting and Other Disclosure website at www.gpl.in

Petrosynthese Limited ni N. Prasad naging Director : 00319482

SALE OF ASSET

DRA BANK LIMITED

urla Complex, Bandra (E) Mumbai, Maharashtra, Pin Code-400 051 Dell Campus Sector 125, Noida, U.P 201313

IMOVABLE PROPERTIES

er The Securitisation And Reconstruction Act, 2002 Under Rule 8(5) Read With Rule

Bank Limited Vide Assignment Agreement In General And In Particular To The Borrower Property Mortgaged/charged To The Secured Taken By The Authorised Officer Of Kotak Is Where Is", "as Is What Is", And "whate Per Vith Unlimited Extension Of 5 Minutes, For h Fifty Five Thousand Seventy Seven And Applicable Interest Till Realization, Under Applicable interest in realization, order hindra Bank Ltd., Secured Creditor From e Will Be Rs. 44,71,771/- (rupees Forty Four Only), emd Will Be Rs. 4,47,177.1/- (rupees even And One Paise Only)& Bid Increment tiples And Last Date Of Submission Of Emd ection: 14-07-2021between 11:00 Am To 4:00

erty Bearing Plot No. 46 & 47, Land Area era No. 12/2/2, Situated In The Area Of Village Uttam Nagar, New Delhi- 110059. The Property orth- Plot No. 45, South- Portion Of Plot.

ub Section 8 Of Section 13, Of The Act, In Asset public In General And Borrowers In led Herein Fails For Any Reason Whatsoeve y Of Sale Through Private Treaty. In Case Of , Bidder May Contact Mr. Rajender Dahiya 63402) And Mr. Prashant Gautam (+91 The Sale, Please Refer To The Link In Kotak Mahindra Bank Website I.e.

Authorized Officer Kotak Mahindra Bank Limited,

NK OF INDIA owk, Distt. Palwal Haryana nail- sbi.00693@sbi.co.in interest (enforcement) rules, 2002]

STEEL STRIPS LIMITED

CIN: L45202PB1975PLC003610

REGD. OFFICE: VILLAGE HARKISHANPURA, BHAWANIGARH TEHSIL, DISTT. SANGRUR, PUNJAB-148026 Website: www.sslindia.net; Email ID: ssl_ssg@glide.net.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/2021

| | the second of th | | Land Land | | | (INR Lacs) |
|-----|--|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| SL. | Particulars , | Quarter Ended | | | Year Ended | |
| No. | | 31-03-2021 | 31-12-2020 | 31-03-2020 | 31-03-2021 | 31-03-2020- |
| | | (AUDITED) | (UNAUDITED) | (AUDITED) | (AUDITED) | (AUDITED) |
| 1 | Total income from operations (Net) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extra ordianary items) | -3.08 | -3.94 | -30.43 | -36.36 | -95.81 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordianary items) | -3.08 | -5.24 | -30.43 | -37.66 | -98.55 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -3.08 | -5.24 | -30.43 | -37.66 | -98.55 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | -3.08 | -5.24 | -30.43 | -37.66 | -98.55 |
| 6 | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Shares Rs. 10/- each) accounting year | 828.31 | 828.31 | 828.31 | 828.31 | 828.31 |
| 7 | Earnings Per Share (of Rs. 101- each) (for continuing and discontinued operations) | | | anar y | | * |
| | Basic & Diluted | -0.04 | -0.06 | -0.37 | -0.45 | -1.19 |

The above is an extract of the details format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.sslindia.net

Place: Chandigarn Date: 11/06/2021

Sdl-Sanjay Garg **Executive Director**

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar-125005 (Haryana) Email: info@hisarmetal.com; Website: www.hisarmetal.com Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (011) 43851119 CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, June 25, 2021 interalia, to consider and approve the audited financial results for the quarter and financia year ended on March 31, 2021 and to recommend dividend, if any, for the said year. The said information is also available on the Company's website at www.hisarmetal.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Hisar Metal Industries Limited

Place: Hisar (Haryana) Date: June 11, 2021

Place: New Delhi

Date: 10.06.2021

(Vishesh Kumar Chugh) Company Secretary

MARUTI & SUZUKI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375

Regd. Off.: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070, India Ph.: +91 (11) 46781000; Fax: +91 (11) 46150275/ 46150276
Web: www.marutisuzuki.com, Email Id: investor@maruti.co.in

GENERAL NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 201 Clause (b) of sub-section (2) of the Companies Act, 2013 "(Act)" to the members of the company that the company intends to make an application to the Central Government for its approval under Section 196, Schedule V and other applicable provisions, if any, of the Act for the appointment of Mr. Shigetoshi Torii as a Whole-time Director designated as Joint Managing Director (Production and Supply Chain) with effect from 28th April, 2021 for a period of three years at a remuneration and subject to the terms and conditions to be approved by the shareholders in the forthcoming General Meeting.

For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover Vice president & Company Secretary F3788

BANK OF INDIA Budhanpur,

IEC EDUCATION LIMITED CIN: L74899DL1994PLC061053 Regd. Off.: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001 Website: www.iecgroup.in Email: cs@iecgroup.in, Ph: 011-41052893 NOTICE

Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the 1st meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2021-22 is scheduled to be held on Monday, June 28, 2021 at E-216, East of Kailash, New Delhi-110065 at 4.00 p.m. inter alia, to consider, approve and take on record Audited financial esults along with Audit Report of the auditors on Financial Statements (Standalone & Consolidated) of the Company for Year ended March 31, 2021. The said notice may be accessed on the Company's website at www.iecgroup.in and also on the website of the stock exchange at www.bseindia.com
By order of the Board

For IEC EDUCATION LIMITED Sd/-

Navin Gupta Managing Director DIN: 00097128 Dated: 11.06.2021 Place: New Delhi

CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED

Regd. Off: UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri, New Delhi-110058 CIN: L74899DL1994PLC061107 Email ID: cmbldelhi@gmall.com Ph. No 91-11-65382244, Website: www.cmbl.co.in NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 & Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of M/s Corporate Merchant Bankers Limited will be held on Wednesday 16th June 2021 at Regd Office at 3.30 p.m., inter-alia to consider and approve Audited Financial Results of the

होण्डा इंडिया पॉवर पोड

(पूर्व होण्डा सिएल पॉवर प्रॉ सीआईएन : L40103DL2004 गर्दआरआरईपीएस

| कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा विनिधानकर्ता किन अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम | निविदा की नियत तिथि |
|---|------------------------|
| यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधान तक | 21.06.2021 |
| (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संरोधित के साथ-साथ नियमों में उन सभी शेयरों के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण हेत | 28.06.2021 |
| संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में लगातार सात वर्षों तक लामांश प्रदत्त ना | 28.06.2021 |
| विभिन्न वांछनीयताओं के अनुपालन में कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020-21 शेयरों को पहले ही आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित कर दिया है विना | 26.08.2021 |
| लगातार सात वर्षों या इससे अधिक समय तक अदत्त या दावारहित वे गें | 30.06.2021 |
| रूप से भी सम्पर्क किया था जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने हेतु 🔄 | 28.06.2021 |
| में अन्तरित किये जाने शेष थे। वित्त वर्ष 2021-22 में आईईपीएक क्रिटर शेयरधारकों के पूर्ण विवरण वेबसाइट (www.hondaindiapower.o | 24.06.2021 |
| शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यदि कम्पनी 31 अगस्त, 2021 तक लाज | 28.06.2021 |
| करती है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित वांछनीयताओं के अनुपतन क डीमैटीरियलाइज तथा अन्तरित करेगी। डीमैटीरियलाइजेशन के उट्टेस्स | 25.06.2021 |
| शेयरधारकों तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित किये व | 24.06.2021 |
| पर नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और नियमों के अनुसार अईईपैस्क ट्रेटर मुद्दे पर, मूल प्रमाण पत्र जो शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत होगा वह स्व | 21.06.2021 |
| माना जायेगा। | 24.06.2021 |
| शेयरधारक पुनः ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अन्तर — आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अन्तरण के उद्देश्य हेत कम्पन च | 28.06.2021 |

नियमों के अनुपालन में पर्याप्त सुचना मानी जायेगी। विषयगत मामले ल

शेयरधारक श्री श्रवण मंगला, मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः होण्ड

मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020.

26387384, ई-मेल: info@masserv.com, वेबसाइट: www.i

थान : ग्रेटर नोएडा तिथि : 11 जून, 2021

आस्ति की ऑनलाइन ई-नी 110081

कोटक महिन्द तहत तयः 2/ बान्द्रा (ई), मुम्बई, र्जान्यः प्लॉट र था प्रति भूति

नी 110081 का के साथ पठित अचल सम्पत्तियों की बिक्री के चंदा, फ्लैट नं. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के निवम ८(६) ना दिनांक 09.

26.06.2021

22.06.2021

प्रबन्धक, हुबल्ली

पुर,

के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तयों के प्रतिभृतिकरण (रुपये चौदह 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अचल परिसम्पविचों 18.01.2020 से एसबीएफसी ने एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 14.03.2019 के माध्या चना की प्राप्ति ऋण एसाइन किया है और एतदृद्वारा आम जनता तथा विजेष रूप है सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभूत केडंटर के चन जिल्हें । को कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकार इस बेंक बलेए एतद्द्वार।

बैंक के बकाये रु. 71,55,077.86 (रुपये इकहतर लाख पचन हा शोहस्ताक्षरी ने वसूली तक भावी प्रयोज्य ब्याज सहित क्रण खात से रेशमा देवी से कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिपत तेन्द्रा के ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' अप. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित बिका के बस्ता क्त नियमों के न्तर्गत दिनांक

उक्त संपत्ति के चौवालीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) उदा बना झ लाख सैतालीस हजार एक सौ सतहत्तर एवं एक पेसे 😑 📁 = ई भी लेन देन अन्तिम तिथि 21.07.2021 को 7.00 बजे अप. (भा.मा.स.) 🖚 उप ार वास्ते रु बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. (भा.मा.स.) तक है। 2020 तक और

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति प्लॉट सं. 46 एवं 47, वृत्रि केळळ = खसरा नं. 12/2/2 में से, ग्राम हस्तसाल, कॉलोनी दीप प्रकार केळ इत्यादि सहित के क्षेत्र में स्थित। सम्पत्ति की सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : 10 फोट तर्गत सुरक्षित उत्तर : प्लॉट सं. 45, दक्षिण : प्लॉट का भाग।

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के जिल्हें हैं 13 की उपधारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसमान्य रही दिव निर्धारित नीलामी किसी कारण से असफल हो जाती है तो तो प्रतिकृत के हि प्रतिभृति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के लिए रखी आस्तियों के 🚃 तल छत के संविदाकार सम्पर्क करें : श्री राजेन्द्र दहिया (+91844 .00 वर्ग मी., (+919910563402) तथा श्री प्रशान्त गौतम (+91 9643615436). ी; दिल्ली -कृपया कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात www.kotak.com tiontiger.net में प्रावधानित लिंक https://www.kotak.com en नचंदा के नाम

न : दिर्ल्ल

तिथि : 10.06.2021

ऑफ इंडियां

SBFC

एसबी पंजीकृत कार्याल

डि. दक्षिण में

जैसा कि नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों ने रिलायन्स हो ने वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा अन्य अधिकारों को प्रतिभृतिकरण न्य इस प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिये एसबीएफसी फाइ ऋणधारकों/मार्टगैजरों ने नियत तिथि के अनुसार ब्याज तथा मृला संबंधित तिथियों को खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपर्मेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा) ईमेलः info@hisarmetal.com, वेबसाइटः www.hisarmetal.com फोन: (01662) 220067, 220367, 220738, फैक्स: (01662) 220265 सीआईएनः L74899HR1990PLC030937

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत और उक्त वर्ष के लिए लामांश, यदि कोई हो, की सिफारिश करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 25 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.hisarmetal.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड हस्ता/

स्थानः हिसार (हरियाणा) दिनांकः 11 जून, 2021

(विशेष कुमार चुघ) कंपनी सचिव

मांग

सचना

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड **VI**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने पूर्व में ही अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचनाएं जारी कर ऋणधारक (कों)/ सह-ऋणधारक/ कों/ गारन्टर (रों) (सभी व्यक्तिगत अथवा साथ- साथ ''देनदारों'' के रूप में वर्णित)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों (नीचे वर्णित) को नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचनाओं में वर्णित राशि के भुगतान का निर्देश दिया था। उक्त सूचनाओं की प्रति पंजीकृत डाक ए.डी. से सर्व की गई तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। तथा उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों, यदि वे ऐसा चाहें, किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में, एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त देनदारों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देनदारों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/ लेखों के साथ पिठत रूप में कॉलम (घ) में वर्णित संबंधित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक नीचे वर्णित आगे के ब्याज के साथ उनके नामों के समक्ष यहां नीचे दर्शाई गई राशि का टीसीएचएफएल को भुगतान करें। ऋण के नियत पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त देनदार (रॉ) द्वारा निम्न प्रतिभृत परिसम्पत्तियां

| gra Tř. | ऋण खाता सं. | देनदार (रॉ)/सांविधिक उत्तराधिकारी/सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम | नीचे वर्णित तिथि को कुल बकाया सशि (रु.)* | मांग सूचना तिथि एवं एनपीए की तिथि |
|------------|---|---|--|---|
| - | 10072938 श्री अमन, पुत्र राजेश (ऋणधारक) 8.5.202 | 8.5.2021 को | को 8.5.2021 | |
| 1. 100 | | श्रीमती अनीता (सह-ऋणधारक) | 五、15,59,210/- | 7.1.2021 |

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: खसरा नं. 578, एरिया माप 65-520 वर्ग मी. अर्थात 705 वर्ग फीट, वार्ड हैदरगंज, ग्राम भूहर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 पर मकान का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः दिनेश कुमार का प्लॉट, पूर्वः 14 फीट चौड़ा रीड, पश्चिम: विकेता का प्लॉट, दक्षिण: आरजी दीगर

| 100 | | | | and the second second second | |
|-----|----------|----------------------------------|----------------|------------------------------|--|
| 1 | 10222663 | श्री अनिल कुमार मिश्रा (ऋणधारक) | 3.5.2021 को | 3.5.2021 | |
| - | | श्रीमती साधना मिश्रा (सह-ऋणधारक) | ₹. 21,99,289/= | 4.12.2020 | |

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पतियों/गिरवी सम्पत्तियों का विवरण: प्लॉट खसरा नं. 19, ग्राम बधामक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एरिया 69-702 वर्ग मी. के भाग पर निर्मित मकान सं. ए-18 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: उत्तर: मकान सं. ए-17, पूर्व: 18 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम: प्लॉट का दीवाल, दक्षिण: मकान सं. ए-19

आगे के ब्याज, संबंधित मांग सूचना, उपरोक्त तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, अनुषांगिक चार्जेंज, लागतों, प्रभारों भुगतान एवं/ अथवा उगाही की तिथि तक वहन की गई, के साथ। यदि उक्त देनदार टीसीएचएफएल को उपरोक्त का भुगतान करने में विफल होते हैं तो लागतों एवं परिणामों के लिये उक्त देनदार (रॉ)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्येवाही करेगा।

उक्त देनदार (रॉ)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बिक्री, पट्ट अथवा अन्य रूप से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमित के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पितियों/ अचल सम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नेयमों के प्रावधानों के उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा दंड के भागी बनेंगे।

तिथि: 12.6.2021 स्थानः लखनऊं, उत्तर प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए

हाटल्स भारत

(सीआईएन : U74899DL1981PLC011274) पंजीकृत कार्यालय : बाराखम्भा लेंन, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 91-1144447777, फैक्स : 91-11-44441234,

ई-मेल : corporate@thelalit.com, वेबसाइट : www.thelalit.com

शेयरधारकों हेतु सूचना अधिनियम, 2002 ("सरफैसी अधिनियम") के अंतर्गत तथा प्रति^{यय} : कम्पनी के इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अन्तरण)

NO

Pursua Educat Rules that un Shares more: Fund

St 10. 1 In acc has al regard

due to RTA re divide The co applic Comp either No cla and E Howe Equity

in pre In cas the Co M/s. Unit Abhi Indu Azad

Tel:

Ema

Web

Place Date

कॉप पंजी का E-

सेवी विनियमन साथ पा सचित र् लिमिटेड जून, 20 भायोजित मार्च, 2 कम्पनी अनुमोद विस

एवं एव सूचीबइ bseind होंगे।

www.

स्थान तिथि: